

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली  
हौज खास, नई दिल्ली -110016  
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI  
Hauz Khas, New Delhi-110016  
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP03676G/132820

Dated:15/07/2019

**Advertisement No.: IITD/IRD/123/2019**

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

| Title of the Project             | Satellite-based monitoring of ambient PM2.5 at National Scale for Air Quality Management (RP03676G) |  |
|----------------------------------|---|--|
| Funding Agency                   | Central Pollution Control Board   |  |
| Name of the Project Investigator | Prof. Sagnik Dey  |  |
| Deptt./Centre                    | Centre for Atmospheric Sciences   |  |
| Duration of the Project          | Upto:28/02/2022   |  |
| Post (s)                         | Consolidated Pay-slab / Fellowship  | Qualifications   |
| Project Assistant (Admin) (1)    | Rs.29,200-31,200-33,200-35,800-38,400-41,000/- p.m. plus HRA @ 24%                                  | Graduate degree with more than 8 years experience in handling project activities, instruments / field measurements in air quality.   |
| Project Scientist (2)            | Rs.35,400-37,900-40,400-43,600-46,800-50,000/- p.m. (consolidated)                                  | Integrated M. Tech. / B. Tech. (with *GATE qualification) / M.C.A. (with GATE qualification) first class or equivalent in the appropriate discipline. Experience in GIS and / or satellite data analysis is desirable.<br>*The requirement of qualifying GATE qualification may be relaxed by the Committee in case of highly meritorious candidates |

The post may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Sagnik Dey at email id: sagnik@cas.iitd.ac.in** IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Sagnik Dey at email id: sagnik@cas.iitd.ac.in**

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by e-mail is 31/07/2019 by 5.00 p.m.** The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(रमा शर्मा)

सहायक कुलसचिव, आईआरडी

**वितरण**

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Sagnik Dey, PI, Centre for Atmospheric Sciences
- Copy to Chairperson, DRC/CRC